SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD.

REGD. / H.O.: 3rd FLOOR, HIMALAYA HOUSE, 23, KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI-110 001 (INDIA)



August 2, 2025

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051

NSE Symbol: SHRIPISTON

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400001

BSE Scrip code: 544344

Sub: Newspaper publication of Un-Audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2025

Ref: Outcome of Board Meeting vide letter dated August 1, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 33 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations, 2015'), the Board of Directors of the Company, at its meeting held on Friday, August 1, 2025 considered and approved the Un-Audited (Standalone and Consolidated) Financial Results of the Company along with Auditor's Limited Review Report for the guarter ended June 30, 2025.

In terms of Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, 2015, the above results were published on August 2, 2025, in the following newspapers:

- The Financial Express (English)
- Jansatta (Hindi)

Copies of the above newspapers are enclosed.

The said newspaper publication also includes a Quick Response (QR) Code to access the financial results for the said period.

Furthermore, in terms of provisions of Regulation 46 of SEBI Listing Regulations, 2015, the aforesaid results are also uploaded on the Company's website (www.shrirampistons.com).

This may be treated as compliance requirement under SEBI Listing Regulations, 2015.

Thanking you. Yours faithfully, For Shriram Pistons & Rings Limited

(Pankaj Gupta) Company Secretary ICSI Membership No.: F4647 Encl: As above

PHONE: +91 11 2331 5941 FAX: +91 11 2331 1203 E-mail: sprl@shrirampistons.com Website: www.shrirampistons.com

PAN: AAACS0229G · CIN: L29112DL1963PLC004084

FINANCIAL EXPRESS

EMERGES AS ONE OF STANDOUT PERFORMERS

Going strong: Apple clocks record India revenue in June qtr

• Flags \$1.1-billion impact from tariff in Sept quarter

FE BUREAU New Delhi, August 1

APPLE RECORDED ALL-time high revenues in over two dozen markets, including India, during the April-June quarter, as CEO Tim Cook flagged accelerating growth across key geographies and outlined looming tariffrelated costs that could dent margins in the September

The iPhone-maker reported a robust performance for the quarter with total revenues of \$94.04 billion and a net profit of \$23.42 billion, up 9.2% year-on-year, beating Wall Street expectations.

India emerged as one of the standout performers for Apple, with Cook highlighting record June-quarter revenues and double-digit growth across product lines such as iPhone, Mac, and services.

He noted that emerging markets, including India, South Asia, the Middle East, and Brazil all witnessed strong momentum, driven by an uptick in demand for iPhones. Apple also saw an acceleration in growth across most of its tracked markets, including Greater China, the US, Canada, Western Europe, and Latin America.

Cook confirmed plans to deepen Apple's presence in India and the Gulf, with new stores set to open in the UAE and India later this year.

This follows the recent launch of its online store in Saudi Arabia, signalling the

STELLAR PERFORMANCE



witnessed strong

momentum

Apple absorbed \$800 million in tariff-related expenses during the June quarter



India and the Gulf tech giant's continued focus

■ Cook confirmed plans to

deepen Apple's presence in

on expanding its direct-toconsumer footprint in the region.

Firm flags tariff

■ Total revenues of

\$94.04 bn and net

profit of \$23.42 bn.

up 9.2% y-o-y

While growth numbers remained strong, Apple flagged an evolving tariff situation that could inflate costs in the coming quarters. Cook said the company

absorbed \$800 million in tariff-related expenses during the June quarter.

For the September quarter, the impact is expected to rise further to around \$1.1 billion, assuming no changes to prevailing global tariff policies.

He cautioned that this estimate is subject to change given the fluidity of trade rules and geopolitical dynamics.

Meanwhile, India's position in the global electronics trade remains intact by the US decision so far to exempt laptops, smartphones, and servers imported from India from the 25% reciprocal tariffs which

kicked in from August 1.

The exemption is part of an ongoing Section 232 investigation into national security implications, effectively shielding Indian electronics from the immediate tariff blow.

India's electronics exports have gained significant traction in the US market, particularly in smartphones. In the June quarter, India

became the largest exporter of smartphones to the US, accounting for 44% of total imports in the category, surpassing both China and Vietnam. Industry watchers say

India's low assembly costs, estimated at \$30 per iPhone unit, give it an edge even in a tariff environment. Even with a hypothetical

25% duty, the landed cost remains far below the cost of US-based production, keeping India attractive as a manufacturing hub in Apple's global

My space mission beginning of India's second orbit: Shukla

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 1

ASTRONAUT SHUBHANSHU **SHUKLA** on Friday described his journey to space as the beginning of India's "second orbit" with the aim to lead in the area of human spaceflight.

Addressing a virtual press

conference, Shukla and his cotravellers of the Axiom-4 mission to the International Space shared Station experiences of living in microgravity and conducting experiments that would help humanity.

"In a realm like space exploration, in decades of global collaboration, the moment in this mission that stood out for me was speaking to the prime minister of Bharat while the Indian flag floated behind me," Shukla said.

He said that moment sym-



bolised India's re-entry into the conversation, not as a spectator but as an equal participant.

"After 41 years, a Bharatiya returned to space. But this time, it was not a solitary leap, it was the beginning of India's second orbit. And this time, we are ready, not just to fly but to lead," Shukla said.


Shukla became second Indian to travel to space after Rakesh Sharma's sojourn.

White-collar job demand up 7%

The white-collar job market in India witnessed a 7% year-on-year rise in July, primarily driven by non-IT sectors like hospitality, according to a report based on Naukri JobSpeak Index. The growth was driven primarily by non-IT sectors, with Hospitality leading at over 26%, followed by Insurance (22%),

Education (16%), and Oil and Gas (13%).Hiring in the IT sector remained

stable as compared to the last year. However, artificial intelligencemachine learning (AI-ML) roles continued their strong momentum with over 41% growth, the report said.



National Film Awards: Shah Rukh Khan & Vikrant Massey best actors, 12th Fail best film

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 1

HINDI CINEMA DOMINATED the 71st National Film Awards on Friday with superstar Shah Rukh Khan winning his career's first best actor award for Jawan alongside Vikrant Massey for 12th Fail which was named the best feature film. The awards, announced for

the year 2023 by jury head and filmmaker Ashutosh Gowariker, recognised Bollywood star Rani Mukerji in the best actress category for *Mrs* Chatterjee vs Norway. It is also her career's first National Film Award. "I'm overwhelmed to have

won the National Award for my performance in Mrs Chatterjee



vs Norway... For me, this award is also a validation of my 30year body of work, my dedication to my craft with which I feel a deeply spiritual connection and my passion for cinema and this beautiful film industry of ours," Mukerji, 47, said in a statement.

Gowariker, who directed



Shah Rukh in 2004's *Swades* said the 59-year-old actor was recognised for "delivering a powerhouse performance, balancing raw intensity and emotional depth and bringing to life a hero who fights not just enemy but societal boundaries, creating two unforgettable cinema personas."

Jawan which minted over

₹1,100 crore at the worldwide box office, was a high-octane thriller from South filmmaker Atlee and featured SRK in the dual role of Army officer Vikram Rathore and his jailor son Azad. The filmmaker said it was

"quite historic" that one of the

biggest stars of Indian cinema

got an award for best acting at the National Film Awards "after such a long and prolific career." Shah Rukh is counted amongst the top stars of

made his debut in 1992 with Hindi film Deewana. "Yes, it is amazing... Him getting (the award) for *Jawan* is something that is great

because he's played a double

Indian cinema ever since he

reporters after the announcement. The jury praised Massey's performance as one that portrayed the transformative journey of a village boy with "raw honesty and emotional depth." In a statement, Massey, 38, said it was a dream come true moment for him. "I am eternally grateful to

role in that," Gowariker told

the audiences for honouring my performances and for recommending this film with such love. It is a privilege to be sharing my first National Award with an icon like Shah Rukh Khan," he added. Filmmaker Karan Johar's

Rocky Aur Rani Kii Kahaani was named the best popular film providing wholesome entertainment.

DECOROUS INVESTMENT & TRADING CO. LTD. CIN: L67120DL1982PLC289090

Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060 Tel No.: 9910003638, Email Id: decorous1982@gmail.com Website: www.ditco.in

Notice/ Intimation is given that 42ND ANNUAL GENERAL MEETING will be held or MONDAY - 22.09.2025 - 11:00 A.M. - via Webinar / Video-Conference (VC/OAVM), to transac Business(es) as set out in the NOTICE of AGM., E-Voting facility through NSDL from 19.09.2025 — 09:00 A.M. to 21.09.2024 - 05:00 P.M., {Shareholders can E-Vote via their NSDL login} Register of Members & Share Transfer Books will remain Closed from 13.09.2025 to 28.09.2025 (both days inclusive), as per SEBI Circular Company will not be dispatching Annual Report (Printed Booklet) of FY 2024-25, Notice & Annual Report is available at Website of Company, BSE Ltd, RTA, NSDL, for download. WEBINAR / VIDEC CONFERENCE facility shall be provided to all Shareholders, details thereof, will be uploade on Company's website & shared/communicated to all Concerned accordingly. New Delhi 01.08.2025 RAJ KUMAR GUPTA WTD & CFO - DIN: 00074532

PUBLIC NOTICE

Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex Mumbai 400051 GOLD E-AUCTION CUM INVITATION NOTICE The below mentioned borrowers have been issued notice to pay off their

outstanding amount towards the facility against gold ornaments.("Facility") availed by them from ICICI Bank Limited ("ICICI Bank"). We are constrained to conduct an E-Auction of pledged gold ornaments on August 13, 2025 as they have failed to repay the dues. ICICI Bank has the authority to remove account /change the E-Auction date without any prior notice. Auction will be held onlinehttps://jewel-auction.procuretiger.com.between 12:30 pm to 3:30 pm. For detailed Terms and conditions, please log into given website. In case of deceased borrower, all conditions will be applicable to legal heirs.

Loan A/C No.	Customer Name	
Branch Name: Sahar	anpur-Ambala Road	
192362002693	Danish Danish	

Date: 02.08.2025

S/d Authorised Officer For ICICI Bank Limited



SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD.

CIN: L29112DL1963PLC004084

Regd. Office: 3rd Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001, Tel.: +91 11 2331 5941 Website: www.shrirampistons.com, E-mail: compliance.officer@shrirampistons.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

(Amount in Million Rs. except per share details)

	Consolidated					
	3 Months	3 Months	3 Months	Year		
	Ended	Ended	Ended	Ended		
Particulars	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total Income from operations	9,917	10,158	8,634	36,612		
Net Profit /(loss) for the period (before tax and exceptional items)	1,830	2,011	1,536	6,816		
Net Profit /(loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,830	2,011	1,536	6,816		
Net Profit /(loss) for the period after tax (after exceptional items)	1,349	1,515	1,172	5,155		
Total comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss)						
for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,319	1,539	1,169	5,208		
Paid up equity share capital	440	440	440	440		
Other equity (excluding revaluation reserves)	_	-	_	23,399		
Earnings per equity share						
(of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations						
(i) Basic	30.35	33.27	26.21	115.02		
(ii) Diluted	30.35	33.27	26.21	115.02		

of Directors in its meeting held on August 01, 2025.

Place : New Delhi

Date: August 01, 2025

Tr	The information on standalone financial results is given below : (Amount in Million Rs. except per share details)						
Н			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dalone	n per silare details)		
		3 Months Ended	3 Months Ended	3 Months Ended	Year Ended		
L	Particulars	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025		
L		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1.	Total Income from operations	8,622	8,787	7,855	32,827		
2.	Net Profit /(loss) for the period (before tax and exceptional items)	1,743	1,858	1,535	6,680		
3.	Net Profit /(loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,743	1,858	1,535	6,680		
4.	Net Profit /(loss) for the period after tax (after exceptional items)	1,298	1,385	1,144	4,978		
5.	Total comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss)	4.005	4.400		5,000		
ı	for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,265	1,408	1,141	5,032		
6.	Paid up equity share capital	440	440	440	440		
7.	Other equity (excluding revaluation reserves)	_	-	-	23,553		
8.	Earnings per equity share						
	(of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations						
	(i) Basic	29.46	31.44	25.95	113.01		
	(ii) Diluted	29.46	31.44	25.95	113.01		

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing) Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the stock exchanges i.e. NSE (www.nseindia.com) & BSE (www.bseindia.com) and company's website (www.shrirampistons.com). 2. The above audited results were reviewed and recommended by Audit Committee in its meeting held on August 01, 2025 and taken on record by Board

SCAN ME

For and on behalf of the Board

(PREM PRAKASH RATHI) CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD. (KRISHNAKUMAR SRINIVASAN) **MANAGING DIRECTOR & CEO**

[See Regulation 33(2)]

By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication. OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT I) 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

DEMAND NOTICE NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/451/2024 03-07-2025 KARNATAKA BANK LIMITED Versus M/S ALPANA NOVELTIES

(CD 1) M/S ALPANA NOVELTIES, THROUGH ITS PARTNERS, AT - B1, SEC B 1, GATE NO 2. TRONICA CITY, LONI, GHAZIABAD, UP

(CD 2) MOHD. SAMI S/O LATE MOHD RAFL, H NO - 1544, GALI KOTANA. SUIWALAN, DARYAGANJ, DELHI -110002

(CD 3) MOHD AFZAL S/O LATE MOHD RAFL, HNO - 1544, GALI KOTANA, SUIWALAN, DARYAGANJ, DELHI -110002

(CD 4) MOHD SAFDAR S/O LATE MOHD RAFI, H NO- 1544, GALI KOTANA, SUIWALAN, DARYAGANJ, DELHI -110002

(CD 5) NIPPUN JAIN S/O NEHRU JAIN, R/O H NO - 78 A, DILSHAD GARDEN. (CD 6) UROOZ AZIZ W/O LATE MOHD AZIZ, R/O H NO.1544, GALI KOTANA

SUIWALAN, DARYAGANJ, DELHI -110002. (CD 7) FAUZAAN AZIZ S/O LATE MR. MOHD AZIZ, THROUGH HIS LEGAL GUARDIAN. R/O H NO - 1544, GALI KOTANA, SUIWALAN, DARYAGANJ, DELHI -110002

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1) in TA/406/2023 an amount of Rs 36971092.92 (Rupees Three Crore Sixty Nine Lakhs Seventy One Thousands Ninety Two And Paise Ninety Two Only) along with pendentellite and future interest @ 12% Simple Interest Yearly w.e.f. 13/08/2020 till realization and costs of

Rs 150005 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Five Only) has become due against you

(Jointly and severally/ Fully/Limited) 2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.

3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 13/10/2025 at 10:30 a.m.

for further proceedings. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 03/07/2025



Sd/-Niranjan Sharma Recovery Officer - II Debts Recovery Tribunal Delhi(DRT-II)

contents of Locker) in the event the Locker is broken open and its contents dealt with in keeping with the provisions of the Locker Agreement.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

DELHI -110009 E-mail: D0356@psb.co.in Date: 28.07.2025 M/s Sikandar Civil Contractor Prop Shri. Sikandar S/o Wahid (Borrower)

BRANCH: MALKAGANJ: A-11 KAMLA NAGAR MALKAGANJ,

23, Tyagraj Nagar market near Tyagraj Stadium, New Delhi-110003 Also at: C-2034 Village Pilanji Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003 Also at: Property No. 1580 3rd Floor Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003

Smt.Sanjo w/o Sh.Sikandar (Guarantor) C-2034 Village Pilanji Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003

Sh. Vinod Bangwal S/O Shri. Mani Ram Bangwal (Guarantor) D-25/1 block N.D.S.E Part II New Delhi-110049 Also at: A-1/115 Lajpat Nagar Ground Floor New Delhi-110024 Reg.: Notice for redemption in terms of the right vested with you under Section 13(8

of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement o Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI ACT") read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 in A/C of M/s Sikandar Civil Contractor Prop. Mr.Sikandar A/c No. 03561300004041 and 03561200000763 at Branch Office MALKAGANJ, Kamla Nagar, New Delhi-110009 under ZO DELHI-II. As you are aware that the Authorized Officer of the bank has issued a demand notice unde section 13(2) of the SARFAESI ACT on 29-01-2024 as a measure for enforcement of security

interest in the secured asset offered by you as security in the subject loan account. Subsequently, the Authorized Officer while taking further measures under section 13(4) of the Act took possession of the secured asset being (Property Details Attached) on 07-05-2024. As you have failed to discharge your liabilities of the bank, therefore, the undersigned as authorized officer, in exercise of its power under section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 has decided to sell the properties secured assets as described below through E-Auction for realization of debts

due to the Bank from above mentioned Borrower & Guarantors. Your attention is invited to the Section 13(8) of Securitization and Reconstruction of Financia Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, in respect of the time available (i.e. 30 days), to redeem the secured assets. Kindly note that you're right under section 13(8) will cease from the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private

treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured asset. Details of Sale Notice for Sale of Immovable Property are as under:-E-Auction Sale Notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6)

of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. 20.09.2025 at 11:00 AM to 01:00 PM E Auction Date & Time **15.09.2025** 10:00 AM to 01:00 PM Date of Inspection 19.09.2025 up to 05:00 PM Last Date of BID Submission

Name of Borrower & Guarantors: Borrower: M/s Sikandar Civil Contractor Prop. Mr. Sikandar

Guarantors: Ms. Sanjo w/o Mr. Sikandar and Mr. Vinod Bangwal S/O Shri. Mani Ram Bangwal Demand Notice Date and amount Account details: 29-01-2024 for Rs.27. 09. 487.34 + future interest and costs from 22-01-2024 **1)** 03561300004041 **2)** 03561200000763

Total O/s as on 27-07-2025 : 1) Rs. 28,60,812.82 + Interest thereon (A/c 03561300004041) **2) Rs. 4,63,988.56** + Interest thereon (A/c 03561200000763) Total= Rs.33,24,801.38/- + Interest thereon

Details of Properties MRP (in lac) Third floor without roof rights, portion of Property No. 1580, part of Khasra No. Rs. 42.50 293, Bhola Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi – 110003 Date: 28.07.2025, Place: New Delhi Authorized Officer, Punjab & Sind Bank

Branch Head

र) बैंक ऑफ़ बड़ौदा) Bank of Baroda



RDC RAJ NAGAR GHAZIABAD BRANCH, C-98 R.D.C. RAJ NAGAR, GHAZIABAD-201001 Phone: 120-2828162, 8126425210 E-Mail - RAJNAG@bankofbaroda.com

Notices to Locker Holders-Bank of Baroda Defaulters in Payment of Rent of Lockers This is for the information of our valued patrons, who have taken lockers on rent at Bank of Baroda, R.D.C. RAJ NAGAR, GHAZIABAD BRANCH and have committed breach of agreement. The notices sent as per the RBI/Bank's guidelines to the locker holders at their recorded addresses have been returned

undelivered or nor responded. Efforts to contact the locker holders in person at their recorded addresses have also gone in vain and their present whereabouts could not be ascertained. Thus, having no alternatives, this notice is being served to all the persons named below for contacting Bank of Baroda, R.D.C. RAJ NAGAR, GHAZIABAD BRANCH to clear the dues of the Bank within a period of 90 days from the publication of this notice, failing which the bank will proceed to break open the locker at

their cost, risk and responsibility and the Bank will exercise its right of lien over the articles for recovery of outstanding rent, cost and other charges, gua this exercise

S No	Old Locker No	ocker New Customer Customer Locker No Name Address		Due Date	Final Notice Sent On	Over Due Amount as 17.04.2025 (In INR)				
1.	360	2186AX0719	ANIL KUMAR AND MAMTA SINGH	Q.N6 TYPE-III,FIRE STATION COLONY GHAZIABAD 201001	23-12-2021	17-04-2025	Rs. 11,289/-			
2.	463	2186AX0830	VINOD UPADHYAY	119, BONJHA,GHAZIABAD, 201001	16-12-2021	17-04-2025	Rs.9474/-+intt			
3.	440	2186AX0806	SANTOSH BANSAL W/O O N BANSAL	R 15/54 RAJ NAGAR, GZB-201001	04-12-2021	17-04-2025	Rs.13216/-+init			
4.	613	2186AX0985	AJAY KUMAR BHALLA S/O SH.O.N.	H-42, SEC-23, RAJ, NAGAR, GZB. 201001	28-11-2021	17-04-2025	Rs.11505/-+intt			
5.	482	2186AX0851	MANJU SINGH W/O LATE BALRAM SINGH	P-183 B, SANJAY NAGAR GHAZIABAD. 201001	23-01-2022	16-04-2025	Rs.12980/-+intt			
6.	683	2186AX1060	VINOD KUMAR GOSWAMI S/O LATE M.L. GOSWANI	H.NO F 82, SEC.10, RAJ NGR., GZB 201001	10-11-2021	17-04-2025	Rs.11505/-+intt			
Pleas	Please note that bank shall be discharged of its obligations and shall not be liable for any cost, loss or liability incurred by the customer (Including for any damage and/or loss of									

New Delhi

epaper.financialexpress.com

दिः 22/07/2025

प्रारूप ए सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम कॉर्म्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि 28 फरवरी, 2022 प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट रजिस्ट्रारऑफ कम्पनीज, दिल्ली व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है और हरियाणा कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता U66020HR2022PLC101655 पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या

कॉर्पोरेट ब्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत

कार्यालय और प्रधान कार्यालय

परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, हरदेव सिंह

दुरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या

दावे जमा करने की अन्तिम तिथि

परिसमापन आरम्भ किया है ।

(यदि कोई हो तो) का पता

होने की तिथि

पंजीकृत कार्यालयः ततीय तल. प्लॉट संख्या 90 सी, सैक्टर 18, अर्बन एस्टेट, गृडगांव, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत-122001 वेबसाइटः https://www.maxlifepensionfund.com/ शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, बाबा हाउस, प्लॉट बेयरिंग सीटीएस, संख्या 268 एमवी रोड, चकला, अंधेरी ईस्ट चकला, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत — 400093

कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंग 29 जुलाई, 2025

ईमेल: singh_hardev@rediffmail.com टैलीफोन नंबर: +919810331425 पंजी: सं:: IBBI/IPA-002/IP-N00177/2017-18/10449 एएफए वैघ: 31.12.2025 तक 28 अगस्त, 2025 एतहारा सचना दी जाती है कि मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमें ट लिमिटेड ने 29 जलाई, 2025 को स्वैच्छिक

प्लाजा, न्यू राजधानी एन्क्लेव, दिल्ली–110092

पताः १०१, प्लॉट नंबर ६, एलएससी, वर्धमान राजधानी

मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उठिलखित पते पर परिसमापक के पास 28 अगस्त, 2025 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे । अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। हरदेव सिंह

तिथि: 01 अगस्त 2025 परिसमापक, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड स्थान: दिल्ली पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00177/2017-18/10449 फॉर्म नंबर आईएनसी 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

> केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

गोग्रीन अप्पेरेल लिमिटेड (जिसे पहले एसबीयुवाईएस ई-कॉमर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-17/1 पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110057 में है, के मामले में

----याचिकाकर्ता एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो. वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, 2 रा तल, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

पंजीकृत कार्यालय : सी-17/1, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110057 आवेदक की ओर से और उसके लिए

गोग्रीन अप्पेरेल लिमिटेड (जिसे पहले एसबीयवाईएस ई-कॉमर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

समित तवाकले

दिनांक: 01.08.2025 पूर्णकालिक निदेशक स्थानः दिल्ली डीआईएन: 10759965

(This is an Advertisement for information purpose only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document or announcement.)

∜GVP **GVP INFOTECH LIMITED**

GVP Infotech Limited was incorporated as "Fourth Dimension Solutions Private Limited" under the provision of Companies Act, 1956 vide certificate of Incorporation dated June 17, 2011 bearing registration No. 221111 issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana. The Company was converted into a Public Limited Company and Certificate of Incorporation Consequent upon Conversion to Public Limited Company was issued on May 25, 2015 by the Registrar of Companies, Delhi and further the name of our Company was changed to "GVP Infotech Limited" vide Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated March 10, 2023. The Company was listed and admitted to dealings on the Emerge platform of National Stock Exchange of India Limited ('NSE') on January 22, 2016 and further, the Company was listed and admitted to dealings on the Capital Market Segment (Main Board) of National Stock Exchange of India Limited ('NSE') pursuant to migration from SME Emerge platform to Main Board of NSE on September 06, 2022. For further details of our Company, please refer to the chapter titled "General Information" on page no. 38 of the Letter of Offer.

Corporate Identification Number: L74110DL2011PLC221111

Registered Office: Office No. 710, Naurang House, Kasturba Gandhi (KG) Road, Connaught Place, New Delhi, India – 110 001 Contact No.: +91-7698828406; Email id: secretarial@gypinfotech.com;

Website: https://gvpinfotech.com; Contact Person: Ms. Drashti Ketan Jain, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. DHAVAL JITENDRAKUMAR MISTRY ON BEHALF OF M/S. LINKSTAR TRUST***

ISSUE OF UPTO 2,11,72,007# PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES WITH THE PAID-UP VALUE OF RE. 1.00/- EACH AND FACE VALUE OF RS. 2.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF GVP INFOTECH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED) ("GVPTECH" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 10.00/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF RS. 8.00/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 21,17,20,070/- ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 13 (THIRTEEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 100 (ONE HUNDRED) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. MONDAY, 30TH JUNE, 2025 (THE "RECORD DATE"). THE ISSUE PRICE IS 5 (FIVE) TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 171 OF THE LETTER OF OFFER. #ASSUMING FULL SUBSCRIPTION OF THE ISSUE AND RECEIPT OF ALL CALLS MONEY WITH RESPECT TO PARTLY PAID EQUITY SHARES.

PAYMENT METHOD FOR RIGHTS EQUITY SHARES							
AMOUNT PAYABLE PER EQUITY SHARE (RS.)	PAID UP VALUE (RE.)	PREMIUM (RS.)	TOTAL (RS.)				
On Application	1.00	4.00	5.00				
1" and Final call as determined by our Board in consultation with Rights Issue Committee	1.00	4.00	5.00				
Total	2.00	8.00	10.00				

ON APPLICATION, INVESTORS WILL HAVE TO PAY RS. 5.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (RE. 1.00/- PAID-UP AND RS. 4.00/- PREMIUM) WHICH CONSTITUTES 50% OF THE ISSUE PRICE AND THE BALANCE RS. 5.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (RE. 1.00/- PAID-UP AND RS. 4.00/- PREMIUM) WHICH CONSTITUTES 50% OF THE ISSUE PRICE, WILL HAVE TO BE PAID, ON 1ST AND FINAL CALL, AS DETERMINED BY OUR BOARD OR THE RIGHTS ISSUE COMMITTEE, AT ITS SOLE DISCRETION. FOR DETAILS, REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 171 OF THE LETTER OF OFFER.

***M/s. Linkstar Trust is a Promoter of the Company and Mr. Dhaval Jitendrakumar Mistry is Trustee of the M/s. Linkstar Trust.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, 14th July, 2025 and closed on Thursday, 24th July, 2025 and the last date for On-Market Renunciation of Rights Entitlements was Friday, 18th July, 2025. Out of the total 890 Applications for 2,34,26,356 Rights Equity Shares, 245 Applications for 2,85,939 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason, 1,01,989 Rights Equity Shares were partially rejected as disclosed in the Basis of allotment approved by National Stock Exchange of India Limited ('NSE'). The total number of valid Applications received were 645 Applications for 2,30,38,428 Rights Equity Shares. Final subscription is 108.82 % after removing rejection of Rights Equity Shares under the Issue.

In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on 30" July, 2025, in consultation with the Registrar to the Issue ("RTA") and National Stock Exchange of India Limited ('NSE'), the Designated Stock Exchange, the Rights Issue Committee allotted 2,11,72,007 Partly Paid-up Rights Equity Shares on 30th July 2025 to the successful Applicants. All valid Applications have been considered for allotment.

The break-up of valid applications received through ASBA is as under:

Applicants	No. of applicants	No. of Equity Shares allotted against REs	No. of Rights Equity Shares allotted against valid additional shares	Total Equity Shares allotted
Eligible Equity Shareholders	586	6,90,476	1,42,20,156	1,49,10,632
Renouncees	59	3,85,170	58,76,205	62,61,375
Total	645	10,75,646	2,00,96,361	2,11,72,007

z. Information regarding total applications received Summary of Allounent in Various categories is as under:									
0.1	Gross			Less: Rejections / Partial Amount			Valid		
Category	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount
Eligible Equity Shareholders	831	1,52,98,560	7,64,92,800	245	3,87,928	19,39,640	586	1,49,10,632	7,45,53,160
Renouncees	59	81,27,796	4,06,38,980	0	0	0	59	81,27,796	4,06,38,980
Total	890	2.34.26.356	11.71.31.780	245	3.87.928	19.39.640	645	2.30.38.428	11.51.92.140

Intimation for Allotment/ refund/ rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on or before 01" August, 2025. The instructions to SCSBs for unblocking of funds were given on 30" July, 2025. The listing application was filed with NSE on 30" July, 2025 and subsequently, the listing approval was received on 31" July, 2025 from NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialised form to respective demat accounts of Allottees was completed on 01" August, 2025 by CDSL and NSDL respectively. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment advice or refund/unblocking of ASBA accounts" on page no. 197 of the Letter of Offer. The trading in Partly Paid-up Equity Shares issued by way of Rights shall commence on NSE under ISIN - IN9382T01012 upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about 7" August, 2025.

Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on or before 02^{nt} August, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: This Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is not exceeding Rs. 5,000.00 Lakhs, however this Letter of Offer will be filed with SEBI for information and dissemination purpose. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full texts as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page no. 166 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHNAGE): It is to be distinctly understood that the permission given by National Stock Exchange of India Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by National Stock Exchange of India Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" on page no. 167 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer. REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: Pinnacle Business Park, Office No. S6-2, 6th Floor, Mahakali Caves Road, Next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India - 400 093 Contact No.: +91-022-62638200 Email id: rightsissue@bigshareonline.com

Investor Grievance Email id: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mr. Jibu John SEBI Registration No.: INR000001385 CIN: U99999MH1994PTC076534



Ms. Drashti Ketan Jain **GVP Infotech Limited**

Address: Office No. 710, Naurang House, Kasturba Gandhi (KG) Road, Connaught Place, New Delhi, India - 110 001 E-mail id: secretarial@gvpinfotech.com

Website: https://gvpinfotech.com Contact No: +91-7698828406

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page no. 171 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For, GVP Infotech Limited On behalf of Board of Directors

Place: Delhi

Date: 2[™] August, 2025

Drashti Ketan Jain Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Our Company has filed the Letter of Offer with the Stock Exchange ("NSE") and submitted with SEBI for information and dissemination. The Letter of Offer is available on website of the Stock Exchange, where the Equity Shares are listed i.e. https://www.nseindia.com/, the website of the Registrar to the Issue at rightsissue@bigshareonline.com and website of the Company at https://gvpinfotech.com. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page no. 25 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared 🖹 for publication in India and may not be released in the United States.



(पूर्व नामित रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालयः 20 कि.मी. मधुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

दुरमाष: +91 (129) 4288888 ई—मेलः info@raunagintl.com वैबसाइटः www.raunaginternational.com सीआईएनः L51909HR1965PLC034315

वार्षिक आम बैठक एवं रिमोट ई-मतदान की जानकारी की सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि रानक इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्व नामित रानक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड) के सदस्यों की 60वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बधवार, 27 अगरत, 2025 को साथ 4:00 बजे वीडियो-सम्मेलन (वीसी)/अन्य ऑडियो–विज्अल माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी, जिसमें वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए सूचना पहले ही शेयरधारकों को भेज दी गयी है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा 05 मई, 2020 को जारी सामान्य परिपन्न संख्या 20/2020 के साथ पठित, 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, 28 दिसम्बर, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022, 25 सितम्बर, 2023 को जारी सामान्य परिपन्न संख्या 09/2023 एवं 19 सितम्बर, 2024 को जारी सामान्य परिपन्न संख्या 09/2024 में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज्ञल माध्यम (ओएवीएम) से वार्षिक आम सभा (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण ('एमसीए परिपन्न') के संबंध में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक को एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। इन एमसीए परिपत्रों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("विनियम") से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम सं आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024--25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी गई है जिनका ई–मेल पता कंपनी∕डिपोजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं और सटीक पथ सहित वैब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन सभी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और ये दस्तावेज कंपनी की वैबसाइट पर भी https://www.raunaginternational.com/pdf/notice-of-60th-agm.pdf ্ব https://www.raunaginternational.com/pdf/annual-report-2024-25.pdf लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जो कि पूर्वोक्त एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा 03 अक्टबर, 2024 जारी परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 के अनुसार है। वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश वार्षिक आम बैठक की सचना में दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

एतदद्वारा पुनः सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियम 20 कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं आगे के संशोधन एवं सेबी अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 के संदर्भ में कंपनी बुधवार, बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को सायं 4:00 बजे को आयोजित होने वाली उपरोक्त एजीएम में व्यवसाय निष्पादित करने के लिए शेयरधारकों को सहर्ष ई-मतदान (एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा दरदराज क्षेत्रों से मतदान) की सुविधा एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामित लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (एमआईआईपीएल) द्वारा प्रदान रिमोट ई-वोटिंग माध्यम से उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि (क) 60वीं एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलैक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, (ख) रिमीट इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 24 अगस्त, 2025 को प्रात: 09:00 बजे से आरंभ होगा, (ग) रिमोट इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 26 अगस्त, 2025 को साथ 05:00 बजे बंद होगा, (घ) रिमोट ई—मतदान के मताघिकार सिद्ध करने के लिए कट-ऑफ तिथि 20 अगस्त, 2025 है, (ङ) कंपनी के सदस्यों को सूचना वितरण के बाद तथा 20 अगस्त, 2025 की कट-ऑफ तिथि से पूर्व जो सदस्य शेयरों का अधिग्रहण करेंगे वे सदस्य rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com या delhi@in.mpms.mufg.com पर एक अनुरोध भेजकर अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, (च) रिमोट इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से मतदान की सर्विधा 26 अगस्त, 2025 को साथ 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी, (छ) एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए मतदान की सुविधा दी जाएगी एवं वहाँ उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे वीसी/ओएवीएम द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, (ज) वह सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर चुके हैं वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्त् उन्हें बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (झ) जिन सदस्यों का नाम सदस्यों की पंजिका में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में 20 अगस्त, 2025 की कटऑफ तिथि पर होंगे, वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा तथा वार्षिक आम बैठक में मतदान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, (अ) 60वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वैबसाइट www.raunaginternational.com एवं स्टॉक एक्सचेज की वैबसाइट www.bseindia.com एवं एमआईआईपीएल की वैबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है और (ट) रिमोट इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया एवं तरीके के लिये सदस्य 60वीं एजीएम की सूचना में दिये गए निर्देशों को देखें या एमआईआईपीएल की वैबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर जा सकते हैं और पृष्ठताछ के मामले में अकसर पृष्ठे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) का सदस्य संदर्भ ले सकते हैं। सदस्यों के लिए रिमोट ई-बोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका https://instavote.linkintime.co.in के अंतर्गत सहायता अनुभाग में हैं अथवा श्री राजीव रंजन. सहायक उपाध्यक्ष-ई-वोटिंग, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामित लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), सी–101, 247, पार्क एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुंबई–400083 से <u>enotices@in.mpms.mufg.com</u> या दूरभाष 022–49186000 पर संपर्क करें जो रिमोट ई-वोटिंग के साथ जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेंगे। ई-मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य कंपनी सचिव को उपरोक्त ई-मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

ई—मेल आईडी और बैंक खाता विवरण और पंजीकरण की प्रक्रिया:

यदि शेयरधारक की ई-मेल आईडी कंपनी/उसके रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट आरटीए / डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग ईन विवरणों को पंजीकत ईमेल पते पर मेजा जा रहा है।

यदि शेयरधारक ने कंपनी/उसके आरटीए/बिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है या लाभांश की प्राप्ति के लिए बैंक खाता जनादेश को अद्यतन नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए कृपया हमारे आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामित लिंक इनटाइम

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (एमआईआईपीएल) की वैबसाइट को लॉग इन करें https://in.mpms.mufg.com पर इन्वेस्टर सर्विसेज > ईमेल/बैंक विवरण पंजीकरण के अंतर्गत विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके अपलोड करें। (II) डीमैंट मोड में आयोजित शेयरों के मामले में: शेयरधारक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') से संपर्क कर सकते हैं और डीपी द्वारा अपनाई

प्रक्रिया और सलाह के अनुसार डीमैट खाते में ई-मेल पता और बैंक खाते का विवरण दर्ज उपरोक्त विवरण कंपनी की वैबसाइट www.raunaginternational.com और स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं।

> कृते रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड (पूर्व नामित रौनकं ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड)

हस्ता/ तिथि: 01 अगस्त, 2025 स्थानः फरीदाबाद

नेहा पटवाल कम्पनी सचिव एवं (सीएफओ) OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER. WATER RESOURCES CIRCLE BARAN

क्रमांक : SEWR/Circle/e-NIB-05/2025-26/1064-72

e-NIB 05 of 2025-26 Bid for "Construction of Protection Wall Near village Bakanpura Tehsil Kishanganj, Distt. Baran (Rs. 299.97 lac)" is invited from interested bidders from 24.07.2025 (9:30 Hr) to 12.08.2025 till 18:00 Hr other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal https://eproc.rajasthan.gov.in & https://sppp.rajasthan.nic.in. www.dipr.rajasthan.gov.in & www.water.rajasthan.gov.in. **UBN No. (1)** WRD2526WSOB0737

(Mahendra Kumar)

DIPR/C/10612/2025

Superintending Engineer Water Resources Circle, Baran

ACE

एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड सीआईएनः L74899HR1995PLC053860

रजि. कार्यालयः दुधौला लिंक रोड, दुधौला, जिला पलवल-121102, हरियाणा फोनः +91-1275-280111 (50 लाइनें), फैक्सः +91-1275-280133, ई-मेलः cs@ace-cranes.com, वेबसाइटः www.ace-cranes.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') और अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित 31वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी ("ओएवीएम")

वार्षिक आम बैठकः

 शेयरबारक कृपया ध्यान दें कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:00 बजे (पहली तारीख) "वीसी" "ओएवीएम" के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के सहपठित सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, 2/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 2 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022, 10 / 2022 दिनांक दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सहपठित, (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और सेबी द्वारा जारी अन्य लाग् परिपत्र (सामुहिक रूप से "प्रासंगिक परिपन्न" के रूप में संदर्शित) लागु प्रावधानों के अनुपालन में एजीएम की बैठक में निर्दिष्ट व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित किए जाएगे।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनकी ईमेल-आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत किए गए हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम नोटिस एनएसडीएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी प्रसारित

जिन शेयरधारकों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं उनके लिए ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करने का तरीकाः

भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यः

आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास फोलियों नंबर के विवरण के साथ जमा करके अपनी ईमेल आईबी admin@skylinerta.com पर पंजीकृत / अपबेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर घारक सदस्यः

सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://www.ace-cranes.com पर उपलब्ध फॉर्म

सदस्यों को कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रार्टिसिपेंटस डीपी" के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट

करना आवश्यक है। ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः अ. सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम के

नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा

ब. डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर धारक सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट वोटिंग करने का तरीका ('रिमोट ई-वोटिंग') एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है। स. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध

कराई जाएगी वार्षिक आम बैठक। द ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के

माध्यम से उपलब्ध कराए जाएँगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है या जिनके ईमेल पते कंपनी / स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेंड / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं।

ङ वीसी / ओवीएएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए भी उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है।

सदस्य फॉर्म आईएसआर-1 और कंपनी की वेबसाइट https://www.ace-

cranes.com पर उपलब्ध अन्य प्रासंगिक फॉर्म कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट

5. लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकृत करने का तरीकाः भौतिक रूप में शेयरघारक सदस्यः

यानी रकाईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास फोलियो नंबर के विवरण के साथ जमा करके अपने बैंक विवरण admin@skylinerta.com पर पंजीकृत / अपडेट कर सकते हैं। इलेक्टॉनिक मोड में शेयरघारक सदस्यः सदस्यों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट "डीपी" के साथ अपने बैंक विवरण पंजीकत / अपबेट करना आवश्यक होगा, इस संबंध में समय-समय पर एसईबी / स्टॉक

अपने बैंक खाते के विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनके पंजीकृत पते पर लामांश वारंट / डिमांड डाफ्ट भेजे जाएंगे। कंपनी ने एजीएम में घोषित होने पर वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए लाभांश के भूगतान के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में गुरुवार, 14 अगस्त,

एक्सचेंज / एमसीए द्वारा जारी परिपन्न / अधिसूचना के अनुपालन में जिन शेयरधारकों ने

2025 को निर्धारित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 से शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। इसका उद्देश्य रिकॉर्ड तिथि, अर्थात गुरुवार, 14 अगस्त 2025 को सभी बकाया शेयरों पर देय 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 100 प्रतिशत लाभांश का भूगतान

करना है, यदि उक्त एजीएम में घोषित किया गया हो। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटस को

ध्यानपूर्वक पर्वे और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका या एजीएम में वोटिंग, एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश पढ़ें। कते, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड,

इस्ता/-अनिल कुमार



श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड

CIN: L29112DL1963PLC004084

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001, फोन: +91 11 2331 5941 E-mail: compliance.officer@shrirampistons.com, Website: www.shrirampistons.com

30 जुन, 2025 को समाप्त तिमाही हेत् अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (राशि मिलियन रू. में प्रति शेयर विवरण के सिवाय) समेकित तीन माह तीन माह

दिनांकः 01.08.2025

1		वान नाह	(।।न नारु	। ।।।। मारु	44
1		समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त
ı	विवरण	जून 30, 2025	मार्च 31, 2025	जून 30, 2024	मार्च 31, 2025
L		अनंकेदित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1	. परिचालनों से कुल आय	9,917	10,158	8,634	36,612
2	. अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानी) (कर, असाधारण मदों से पहले)	1,830	2,011	1,536	6,816
3	. अवधि हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानी) (असाधारण मदों के बाद)	1,830	2,011	1,536	6,816
4	. अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानी) (असाधारण मदों के बाद)	1,349	1,515	1,172	5,155
5	. अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानी) (कर के बाद)				
ı	शामिल एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)}	1,319	1,539	1,169	5,208
6	. चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	440	440	440	440
7	. अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	-	_	_	23,399
8	Proposition Consistent and Consisten				
ı	संचालन के जारी रखने और छोड़ने हेतु				
ı	(i) मूल	30.35	33.27	26.21	115.02
L	(ii) तरल	30.35	33.27	26.21	115.02
4	टेंडअलोन वित्तीय परिणामों की जानकारी नीचे दी गई है :			गशि मिलियन रू. में प्रति	शेयर विवरण के सिवाय)
			स्टैंडः	प्रलोन	

(1) \(\frac{1}{2}\)	30.33	33.21	20.21	110.02
(ii) तरल	30.35	33.27	26.21	115.02
स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों की जानकारी नीचे दी गई है :		.0	गशि मिलियन रू. में प्रति	शेयर विवरण के सिवाय)
		रटैं डः	प्रलोन	W 8
	तीन माह	तीन माह	तीन माह	वर्ष
	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त
विवरण	जून 30, 2025	मार्च 31, 2025	जून 30, 2024	मार्च 31, 2025
	अनं के दिवत	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1. परिचालनों से कुल आय	8,622	8,787	7,855	32,827
2. अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानी) (कर, असाधारण मदों से पहले)	1,743	1,858	1,535	6,680
3. अवधि हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानी) (असाधारण मदों के बाद)	1,743	1,858	1,535	6,680
4. अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानी) (असाधारण मदों के बाद)	1,298	1,385	1,144	4,978
5. अवधि हेतुं कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानी) (कर के बाद)				
शामिल एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)}	1,265	1,408	1,141	5,032
6. चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	440	440	440	440
7. अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	_	_	_	23,553
8. आय प्रति इक्विटी रायर (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रू. 10/-)				
संचालन के जारी रखने और छोड़ने हेतु				
(i) मूल	29.46	31.44	25.95	113.01
(ii) तरल	29.46	31.44	25.95	113.01

टिप्पणिया 🛮 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का सार है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्मपर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेवसाईट NSE (www.nseindia.com) एवं BSE (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेवसाईट (www.shrirampistons.com) पर भी उपलब्ध है।

2. उपरोक्त लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा की गई हैं और लेखापरिक्षक समिति द्वारा अगस्त 01, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अगस्त 01, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया है।



श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड हस्ता./-

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता. / – (प्रेम प्रकाश राठी) (कृष्णाकुमार श्रीनिवासन) मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रबंध निदेशक एवं सीईआ

epaper.jansatta.com

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : अगस्त 01, 2025